



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1740]
No. 1740]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 15, 2008/अग्राहायण 24, 1930
NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 15, 2008/AGRAHAYANA 24, 1930

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2008

का.आ. 2886(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 2156(अ), तारीख 18 दिसम्बर, 2007 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तमिलनाडु राज्य के थूथुक्कुडी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45बी के 192.800 कि.मी. से 267.300 कि.मी. (मदुरै-अरुप्पुकोट्टई-थूथुक्कुडी सेक्शन) तक के भूखंड का निर्माण, (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 14 फरवरी, 2008 को "दि हिन्दू" और "डेली थांथी" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और, आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45बी के 192.800 कि. मी. से 267.300 कि. मी. (मदुरई - अरुप्पुकोट्टाई - थूथुकुडी सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	थूथुकुडी	ईटायापुरम	(1)मानजयनायकनपट्टी	142/2	निजी	शुष्क	313	3501 कोसलाई
				142/3	निजी	शुष्क	358	3466 पोनराज
				142/4	निजी	शुष्क	810	1012 पोन्नुचामी
				143	सरकारी	सड़क	6600	सरकारी
				144	निजी	शुष्क	1764	269 थंगापांडी नादर
				145/1	निजी	शुष्क	811	740 बोमाईय
				145/2	निजी	शुष्क	770	3414 रामामुर्धि
				145/6	निजी	शुष्क	765	1. 3463 सीनिवासन
								2. कांगाराज
								3. ईलाईयालवार
				145/7	निजी	शुष्क	811	724 पलानिसामी
				146/1	निजी	शुष्क	612	1. 3439 उथांदाराज
								2. सीनिवासन
								3. ईलाईयालवार
				146/2	निजी	शुष्क	606	677 वीशलाक्काम्मल
				146/3ए	निजी	शुष्क	1322	3467 पेरीसामी
				146/4	निजी	शुष्क	733	656 मरीमुथु
				146/5	निजी	शुष्क	770	3408 सैथिलकुमार
				146/6	निजी	शुष्क	641	739 राजाकृष्णाम्मल
				147	सरकारी	रास्ता	8600	सरकारी
				148/1	निजी	शुष्क	270	3466 पोनराज
				148/3	निजी	शुष्क	274	679 रामाकृष्णासामी
				148/4बी	निजी	शुष्क	250	732 कासीमहाराज
				148/9	निजी	शुष्क	435	334 पीचिया असारि
				149/1	सरकारी	एडब्ल्यू डी	190	सरकारी
				149/2	सरकारी	एडब्ल्यू डी	91	सरकारी
				149/3	निजी	शुष्क	480	139 शुनमुगावेल
				149/4	निजी	शुष्क	426	3407 सवीपाउल
				150	सरकारी	एडब्ल्यू डी	7000	सरकारी
				151/2	निजी	शुष्क	285	3507 शिवकुमार
				151/3	निजी	शुष्क	143	233 चेल्लाथाई
				151/4	निजी	शुष्क	452	491 राजकुमारीयम्मल
				179/1	निजी	शुष्क	112	556 रामासामी
				179/4	सरकारी	एडब्ल्यू डी	65	सरकारी
				180	सरकारी	एडब्ल्यू डी	8800	सरकारी
				181/2	निजी	शुष्क	254	1. 303 शंथानामरी
								2. अलागुमिना
				181/6सी	निजी	शुष्क	78	659 कुमुलस्मी
				181/8	निजी	शुष्क	73	3487 थंगामुथु
				182/3ए	निजी	शुष्क	340	745 मरीमुथु

1	2	3	4	5	6	7	8	
			(2) ईथीलाप्पानायकनपट्टी	28/7	निजी	शुष्क	324	587 के चेन्नाम्मल
				28/8	सरकारी	अनाथिनम	564	सरकारी
				28/9	निजी	शुष्क	254	803 एस वेईलाम्मल
				28/10	सरकारी	अनाथिनम	754	सरकारी
				28/11	निजी	शुष्क	250	803 एस वेईलाम्मल
				29/6	निजी	शुष्क	245	683 एन ईलाईयालवार
				29/7	निजी	शुष्क	1173	3533 एन ईलाईयालवार
				34	सरकारी	पदैल रास्ता	385	सरकारी
				35/1	निजी	शुष्क	794	155 सी कृष्णासामी नाईकर
				35/2	निजी	शुष्क	732	588 आर पोनुसामी नाईकर
				35/3	निजी	शुष्क	428	760 एस रूथ ② शानथाम्मल
				35/4	निजी	शुष्क	455	900 सन फुड कापोर्सन रविन्द्रा नाईर
				35/6	निजी	शुष्क	365	900 सन फुड कापोर्सन रविन्द्रा नाईर
				35/8	निजी	शुष्क	258	867 जी मोटाईया थेवर एस गोवसीलामनी
				36	सरकारी	रास्ता	8400	सरकारी
				37/2	निजी	शुष्क	59	410 पी चेल्लाम्मल
				37/4	निजी	शुष्क	865	237 एम शुनमुगम असासी
				37/5	निजी	शुष्क	918	955 टी प्रेमलता
				37/6	निजी	शुष्क	1745	3411 आर पाउलराज
				37/7	निजी	शुष्क	520	760 एस रूथ ② शानथाम्मल
				37/8	निजी	शुष्क	626	900 सन फुड कापोर्सन रविन्द्रा नाईर
				37/9	निजी	शुष्क	225	900 सन फुड कापोर्सन रविन्द्रा नाईर
				42	सरकारी	पदैल रास्ता	380	सरकारी
				43	सरकारी	रास्ता	4400	सरकारी
				44	सरकारी	रास्ता	11150	सरकारी
				45/1	निजी	शुष्क	884	915 टी आर मोहनराज
				45/2	निजी	शुष्क	972	916 एम चित्रा मोहनराज
				45/3	निजी	शुष्क	922	518 आर बालाकृष्णन
				45/5	निजी	शुष्क	2648	572 एस बालासुब्रामणियन जी गीता
				45/6	सरकारी	उरानी	683	सरकारी
				46/2	निजी	शुष्क	1351	919 एन चित्रा
				46/3बी	निजी	शुष्क	780	413 एस चेल्लाम्मल
				227/6	निजी	शुष्क	564	3536 एन ईलाईयालवार
				227/7	सरकारी	अनाथिनम	915	सरकारी
				228/1	निजी	शुष्क	694	921 पी कोप्पाम्मल
				228/3	सरकारी	अनाथिनम	922	सरकारी
				228/4	निजी	शुष्क	666	3411 आर पाउलराज
				228/9	सरकारी	अनाथिनम	2034	सरकारी
				230	सरकारी	पदैल रास्ता	300	सरकारी
				231	सरकारी	रास्ता	4200	सरकारी
				232	सरकारी	रास्ता	5150	सरकारी

1	2	3	4	5	6	7	8	
				233/1ए	निजी	शुष्क	311	169 सी मुथुकुमारासामी नाईकर
				233/1बी	निजी	शुष्क	376	697 के सेथुरानी
				233/1डी	निजी	शुष्क	148	3466 एस वाराथाराजन ए रामाचन्द्रन
				235/2	निजी	शुष्क	158	26 आर अन्नम्मल
				239	सरकारी	नाथम	750	सरकारी
				240	सरकारी	रास्ता	3000	सरकारी
				241/1	निजी	शुष्क	496	3451 जी शांथानराज
				297/1	निजी	शुष्क	547	683 एन ईलाईयालवार
				297/5	निजी	शुष्क	300	683 एन ईलाईयालवार
				298	सरकारी	रास्ता	6500	सरकारी
				299/2	निजी	शुष्क	643	3554 के बालाकृष्णन
				299/5	निजी	शुष्क	645	173 आर गुरुसामी नादर
				299/6	निजी	शुष्क	565	173 आर गुरुसामी नादर
				300/5	निजी	शुष्क	412	526 पी ईसवरी
				309/12	निजी	शुष्क	519	3556 एस चेललाईया
				309/13	निजी	शुष्क	738	3485 वी गुरुसामी
				310	सरकारी	पदेल रास्ता	99	सरकारी
				315/1ए	निजी	शुष्क	695	858 एस रंगासामी पी सासी कुमारी
				315/2	निजी	शुष्क	650	13 के कासीम्मल
				315/4	निजी	शुष्क	433	402 एस सेलवाराज नादर
				319/6	निजी	शुष्क	63	646 के मुथुईया
				319/7	निजी	शुष्क	1112	859 एस मधासामी वी सागादेवा नादर
				320	सरकारी	रास्ता	6000	सरकारी
				322	सरकारी	रास्ता	4150	सरकारी
				323	सरकारी	रास्ता	7350	सरकारी
				324/3	निजी	शुष्क	770	3542 वी कासीवेलाम्मल
				324/4	निजी	शुष्क	450	183 एस कुमारा काम्माम्मल
				324/5	निजी	शुष्क	1208	3542 वी कासीवेलाम्मल
				330	सरकारी	पदेल रास्ता	323	सरकारी
				331/1	निजी	शुष्क	15	683 एन ईलाईयालवार
				331/2	निजी	शुष्क	1670	683 एन ईलाईयालवार
				331/3	निजी	शुष्क	25	683 एन ईलाईयालवार
				331/7	निजी	शुष्क	1397	683 एन ईलाईयालवार
				331/9	निजी	शुष्क	2052	958 वी सोनुद्रापांडीयन
				331/10	निजी	शुष्क	1761	958 वी सोनुद्रापांडीयन
				333/1	निजी	शुष्क	3102	108 एस राजागोपाल
				333/4	सरकारी	पदेल रास्ता	154	सरकारी
				333/5	निजी	शुष्क	1810	270 वी कासी नादर
			(3) चोल्तापुरम	129/1	निजी	शुष्क	3541	454 वी बाकीयलक्ष्मी
				129/2	सरकारी	पदेल रास्ता	139	सरकारी
				129/5	निजी	शुष्क	524	653 पी रामामुर्थि
				130/1	निजी	शुष्क	543	456 पी रामामुर्थि
				130/2	निजी	शुष्क	554	614 पी श्रीनिवासन

1	2	3	4	5	6	7	8	
				182/3बी	निजी	शुष्क	235	746 एयिराक्कल
				183	सरकारी	एडब्ल्यू डी	6850	सरकारी
				184/1	सरकारी	एडब्ल्यू डी	117	सरकारी
				184/2	निजी	शुष्क	312	348 पेरुमल
				184/3	सरकारी	एडब्ल्यू डी	516	सरकारी
				184/4	निजी	शुष्क	898	1. 312 पनीरसेलवम 2. एलागुमीना
				185	सरकारी	रास्ता	80	सरकारी
				188/2डी	निजी	शुष्क	14	1. 603 थायाम्मल 2. वेलुचामी
				189/1	निजी	शुष्क	10	1. 383 पोनुचामी 2. एथोनयमथा
				189/2	निजी	शुष्क	681	422 एथोनयमथा
				190	सरकारी	रास्ता	7750	सरकारी
				191/1बी	निजी	शुष्क	16	376 पोनराज
				191/3	निजी	शुष्क	1720	693 पोनराज
				191/4	निजी	शुष्क	1142	445 मेरवादीले बेनेफीटस चितस
				192	सरकारी	एडब्ल्यू डी	263	सरकारी
				193/2	निजी	शुष्क	1381	3431 इलाईयालवार
				194/1ए	निजी	शुष्क	661	499 रामाकृष्णासामी
				194/2ए	निजी	शुष्क	1469	3506 सीतालक्ष्मी और 8 अन्य
				194/3	निजी	शुष्क	855	152 सांथानामरी
				195/1	निजी	शुष्क	1518	1. 604 एयादुराई 2. अन्नामलाई चेतियार
				195/2ए	निजी	शुष्क	918	91 माघासामी
				195/3	निजी	शुष्क	1608	43 ओवीलाईम्मल
				195/4	निजी	शुष्क	2408	751 थिक्कुवीरजयासामी
				211/1	निजी	शुष्क	1960	294 नादारजुन
				212	सरकारी	रास्ता	7900	सरकारी
				213/1	निजी	शुष्क	509	3471 सुब्बिया
				213/2	सरकारी	ओडाई	80	सरकारी
				213/3ए	निजी	शुष्क	733	705 मनीराम्मल @ पोन्थाइ
				213/3बी	सरकारी	एडब्ल्यू डी	52	सरकारी
				213/3सी	निजी	शुष्क	960	698 राजालक्ष्मी
				233/2ए	निजी	शुष्क	271	3468 पोनराज 2. सुब्बिया
				234/3ए	निजी	शुष्क	132	86 सुब्बिया
				235	सरकारी	ओडाई	465	सरकारी
				236	सरकारी	रास्ता	1050	सरकारी
				237	निजी	शुष्क	3401	3469 दुराईमुलगन
				238/1	निजी	शुष्क	1472	738 सामीनाईकर
				238/2	सरकारी	पदेल रास्ता	707	सरकारी
				246/1	निजी	शुष्क	160	550 वेलासामी नाईकर
				246/2ए	सरकारी	एडब्ल्यू डी	768	सरकारी
				246/3	सरकारी	एडब्ल्यू डी	760	सरकारी
				247/1	निजी	शुष्क	1295	516 महालक्ष्मीम्मल

1	2	3	4	5	6	7	8	
				130/3	निजी	शुष्क	655	1. एम मुथुसामी नादर 2. कलसीम इन्डसट्रिज कॉ
				130/4	निजी	शुष्क	754	265 एम मुथुसामी नादर कलसीम इन्डसट्रिज कॉ
				130/5	निजी	शुष्क	5784	433 ए बालाकृष्णन
				131	सरकारी	रास्ता	188	सरकारी
				132	सरकारी	रास्ता	7100	सरकारी
				133	सरकारी	रास्ता	7100	सरकारी
				134/2	निजी	शुष्क	1362	181 एस सेलवम
				134/3	सरकारी	पदैल रास्ता	1050	सरकारी
				134/4	निजी	शुष्क	1422	448 एस सेलवम
				135/1ए	निजी	शुष्क	888	110 जे जयाबालन
				135/1बी	निजी	शुष्क	970	645 हेतहली
				135/5	निजी	शुष्क	880	613 एस पोन्नराज(ए) पोन्नुवेल
				135/6	निजी	शुष्क	909	126 सी सेलवाराज
				147/1	निजी	शुष्क	4,220	448 एस सेलवम
				147/4	सरकारी	ओडाई	103	सरकारी
				148/1	निजी	शुष्क	1175	117 एस सेलवम
				148/2	निजी	शुष्क	728	182 ए शुमुगाथाई, एस थेनमनी
				149	सरकारी	रास्ता	2900	सरकारी
				150	सरकारी	रास्ता	7750	सरकारी
				151/1	निजी	शुष्क	1486	458 पी रेनुका
				151/2ए	निजी	शुष्क	705	641 एस उमर बानु
				151/2बी	निजी	शुष्क	725	641 एस उमर बानु
				151/3	निजी	शुष्क	1980	458 पी रेनुका
				151/4	निजी	शुष्क	1394	96 टी थंगापांडी नादर
				151/5	निजी	शुष्क	1285	646 के सटलीन
				152	सरकारी	रास्ता	10050	सरकारी
				153/1	निजी	शुष्क	50	456 पी रामामूर्ति
				153/2	निजी	शुष्क	5504	439 वी कासीवेल शंकर जी वसन्था जी जयांगा ज्योति जी विजयलक्ष्मी
				156	सरकारी	लो नि वि का	1104	सरकारी
				157	सरकारी	रास्ता	7600	सरकारी
				158	सरकारी	रास्ता	7700	सरकारी
				159/1	निजी	शुष्क	1069	629 जे हेमालता
				159/2	निजी	शुष्क	656	162 के रवि
				159/3	निजी	शुष्क	882	636 के गुनाशेखरन
				198/1बी	निजी	शुष्क	448	395 टी दुराई पांडी नादर टी पाउलराज नादर टी जयापाउल नादर सी काथापांडीन
				198/1सी	निजी	शुष्क	468	452 सी बानुमाथी सी पेरीयासामी नाथन सी सीतारानी

1	2	3	4	5	6	7	8	
				199/1पी	निजी	शुष्क	1064	301 एस रामासामी
				199/3	निजी	शुष्क	1508	649 के माधीप्रकाशम
				200	सरकारी	रास्ता	7200	सरकारी
				201	सरकारी	लो नि वि का	2332	सरकारी
				202	सरकारी	लो नि वि का	692	सरकारी
				204	सरकारी	लो नि वि का	336	सरकारी
				205	सरकारी	लो नि वि का	103	सरकारी
				206/1	सरकारी	ओडाई	4	सरकारी
				206/2ए	निजी	शुष्क	81	97 के कुमारसामी
				208/1	निजी	शुष्क	714	115 बी सान्ती
				208/2	निजी	शुष्क	814	121 जी वेटरिवेल
				208/3	निजी	शुष्क	643	378 पार्थासारथी
				208/4	निजी	शुष्क	284	211 पी अरुणकुमार
				298/5	सरकारी	लो नि वि का	164	सरकारी
				209/1	निजी	शुष्क	765	121 जी वेटरिवेल
				209/3	निजी	शुष्क	676	121 जी वेटरिवेल

[फा. सं. भाराप्र/बीओटी/11012/59/2005 (भाग)]

प्रभाकर, उप-सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 2008

S.O. 2886(E).— Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways), number S.O. 2156(E), dated the 18th December, 2007, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/ four laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 45B, on the stretch of land from Km. 192.800 to Km. 267.300 (Madurai-Aruppukottai-Thoothukkudi Section) in Thoothukkudi District in the State of Tamil Nadu;

And, whereas, the substance of the said notification has been published in "The Hindu" and "Daily Thanthi", both dated the 14th February, 2008 under sub-section (3) of Section 3A of the said Act;

And, whereas, objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And, whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted his report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule annexed hereto are to be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km.192/800 to 267/300 (Madurai – Aruppukottai – Thoothukkudi Section) on National Highways No. 45B in the state of Tamil Nadu.

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey / Sub-division number	Type of land	Nature of land	Area (in square meters)	Name of the land owners/ Interested persons
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Thoothukkudi	Ettayapuram	(1) Manjanaickenpatti	142/2	Private	Dry	313	3501.Kosalai
				142/3	Private	Dry	358	3466.Ponraj
				142/4	Private	Dry	810	1012.Ponnuchamy
				143	Government	Road	6600	Government
				144	Private	Dry	1764	269.Thangapandi Nadar
				145/1	Private	Dry	811	740.Boornaiah
				145/2	Private	Dry	770	3414.Ramamoorthy
				145/6	Private	Dry	765	3463.Seenivasan.1, Kanagaraj.2, Elaiyalvar.3
				145/7	Private	Dry	811	724.Palanichamy
				146/1	Private	Dry	612	3439.Uthandaraj.1, Seenivasan.2, Elaiyalvar.3
				146/2	Private	Dry	606	677.Veeralakammal
				146/3A	Private	Dry	1322	3467.Periasamy
				146/4	Private	Dry	733	656.Marimuthu
				146/5	Private	Dry	770	3408.Senthilkumar
				146/6	Private	Dry	641	739.Rajakrishnammal
				147	Government	Rastha	8600	Government
				148/1	Private	Dry	270	3466.Ponraj
				148/3	Private	Dry	274	679.Ramakrishnaswamy
				148/4B	Private	Dry	250	732.Kasimaharaj
				148/9	Private	Dry	435	334.Pitchiah Asari
				149/1	Government	AWD	190	Government
				149/2	Government	AWD	91	Government
				149/3	Private	Dry	480	139.Shunmugavel
				149/4	Private	Dry	426	3407.Sweepaul
				150	Government	AWD	7000	Government
				151/2	Private	Dry	285	3507.Sivakumar
				151/3	Private	Dry	143	233.Cheflathai
				151/4	Private	Dry	452	491.Rajkumariammal
				179/1	Private	Dry	112	556.Ramasamy
				179/4	Government	AWD	65	Government
				180	Government	AWD	8800	Government
				181/2	Private	Dry	254	303.Santhanamari.1 Alagumeena.2
				181/6C	Private	Dry	78	659.Kamulakshmi

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				181/8	Private	Dry	73	3487.Thangamuthu
				182/3A	Private	Dry	340	745.Marimuthu
				182/3B	Private	Dry	235	746.Ayirakkal
				183	Government	AWD	6850	Government
				184/1	Government	AWD	117	Government
				184/2	Private	Dry	312	348.Perumal
				184/3	Government	AWD	516	Government
				184/4	Private	Dry	898	312.Panceerselvam.1 Alagumeena.2
				185	Government	Rastha	80	Government
				188/2D	Private	Dry	14	603.Thayammal.1 Veluchamy.2
				189/1	Private	Dry	10	382.Ponnuchamy.1 Anthony metha.2
				189/2	Private	Dry	681	422.Anthonymetha
				190	Government	Rastha	7750	Government
				191/1B	Private	Dry	16	376.Ponraj
				191/3	Private	Dry	1720	693.Ponraj
				191/4	Private	Dry	1142	445.Mercandile Benefits chits
				192	Government	AWD	263	Government
				193/2	Private	Dry	1381	3431.Elaiyalvar
				194/1A	Private	Dry	661	499.Ramakrishnaswamy
				194/2A	Private	Dry	1469	3506 Seethalakshmi & Eight others
				194/3	Private	Dry	855	152.Santhanamari
				195/1	Private	Dry	1518	604. Ayyadurai.1 Annamalai Chettiar.2
				195/2A	Private	Dry	918	91.Madasamy
				195/3	Private	Dry	1608	43.Ovilaiammal
				195/4	Private	Dry	2408	751.Thikkuvijayasamy
				211/1	Private	Dry	1960	294.Nadarajan
				212	Government	Rastha	7900	Government
				213/1	Private	Dry	509	3471.Subbiah
				213/2	Government	Odai	80	Government
				213/3A	Private	Dry	733	705.Maniramanal @ Ponnuthai
				213/3B	Government	AWD	52	Government

48856/2008-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				213/3C	Private	Dry	960	698. Rajalakshmi
				233/2A	Private	Dry	271	3468. Ponraj. 1 Subbiah. 2
				234/3A	Private	Dry	132	86. Subbiah
				235	Government	Odai	465	Government
				236	Government	Rastha	1050	Government
				237	Private	Dry	3401	3469. Duraimurugan
				238/1	Private	Dry	1472	738. Samynaickar
				238/2	Government	Cart Track	707	Government
				246/1	Private	Dry	160	550. Velchamy Naickar
				246/2A	Government	AWD	768	Government
				246/3	Government	AWD	760	Government
				247/1	Private	Dry	1295	516. Mahalakshmiammal
			(2) Ethilappanailckenpatti	28/7	Private	Dry	324	587 K. Chennammal
				28/8	Government	Anathinam	564	Government
				28/9	Private	Dry	254	803 S. Veilammal
				28/10	Government	Anathinam	754	Government
				28/11	Private	Dry	250	803 S. Veilammal
				29/6	Private	Dry	245	683 N. Ilaiyaalwar
				29/7	Private	Dry	1173	3533 N. Ilaiyaalwar
				34	Government	Cart Track	385	Government
				35/1	Private	Dry	794	155. C. Krishnaswamy Naickar
				35/2	Private	Dry	732	588 R. Ponnuchamy Naickar
				35/3	Private	Dry	428	760 S. Ruth @ Shanthammal
				35/4	Private	Dry	455	900 Sun Food corporation Ravindra Nair
				35/6	Private	Dry	365	901 Sun Food corporation Ravindra Nair
				35/8	Private	Dry	258	867 G. Mottaiya Thevar M. Gowsilamani
				36	Government	Rastha	8400	Government
				37/2	Private	Dry	59	410 P. Chellammal
				37/4	Private	Dry	865	237 M. Shunmugam Asari
				37/5	Private	Dry	918	955. T. Premalatha
				37/6	Private	Dry	1745	3411. R. Paulraj
				37/7	Private	Dry	520	760. S. Rooth @ Santhammal
				37/8	Private	Dry	626	900. Sun Food Cor. Raveendra Nair
				37/9	Private	Dry	225	900. Sun Food Cor. Raveendra Nair

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				42.	Government	Cart Track	380	Government
				43	Government	Rastha	4400	Government
				44	Government	Rastha	11150	Government
				45/1	Private	Dry	884	915 T.R.Mohanraj
				45/2	Private	Dry	972	916 M. Chithra Mohanraj
				45/3	Private	Dry	922	518 R. Balakrishnan
				45/5	Private	Dry	2648	572. S. Balasubramanian G. Geetha
				45/6	Government	Urani	683	Government
				46/2	Private	Dry	1351	919. N. Chitra
				46/3B	Private	Dry	780	413. S. Chellammal
				227/6	Private	Dry	564	3536. N. Elaiyalvar
				227/7	Government	Anathinam	915	Government
				228/1	Private	Dry	694	921. P. Koppammal
				228/3	Government	Anathinam	922	Government
				228/4	Private	Dry	666	3411. R. Paulraj
				228/9	Government	Anathinam	2034	Government
				230	Government	Cart Track	300	Government
				231	Government	Rastha	4200	Government
				232	Government	Rastha	5150	Government
				233/1A	Private	Dry	311	169. C. Muthukumarasami Naicker
				233/1B	Private	Dry	376	697. K. Sethurani
				233/1D	Private	Dry	148	3466. S. Varatharajan A. Ramachandran
				235/2	Private	Dry	158	26. R. Annammal
				239	Government	Nathain	750	Government
				240	Government	Rastha	3000	Government
				241/1	Private	Dry	496	3451. G. Santhanaraj
				297/1	Private	Dry	547	683. N. Elaiyalvar
				297/5	Private	Dry	300	683. N. Elaiyalvar
				298	Government	Rastha	6500	Government
				299/2	Private	Dry	643	3554. K. Balakrishnan
				299/5	Private	Dry	645	173. R. Gurusamy Nadar
				299/6	Private	Dry	565	173. R. Gurusamy Nadar
				300/5	Private	Dry	412	526. P. Eswari
				309/12	Private	Dry	519	3556. S. Chelliah
				309/13	Private	Dry	738	3485. V. Gurusamy
				310	Government	Cart Track	99	Government
				315/1A	Private	Dry	695	858. S. Rengasamy P. Sasi kumari

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				315/2	Private	Dry	650	13.K. Kasiammal
				315/4	Private	Dry	433	402. S. Selvaraj Nadar
				319/6	Private	Dry	63	646. K. Muthaiah
				319/7	Private	Dry	1112	859. S. Madasamy V. Sagadeva Nadar
				320	Government	Rastha	6000	Government
				322	Government	Rastha	4150	Government
				323	Government	Rastha	7350	Government
				324/3	Private	Dry	770	3542. V. Kasivelammal
				324/4	Private	Dry	450	183. S. Kumara kammammal
				324/5	Private	Dry	1208	3542. V. Kasivelammal
				330	Government	Cart Track	323	Government
				331/1	Private	Dry	15	683. N. Elaiyalvar
				331/2	Private	Dry	1670	683. N. Elaiyalvar
				331/3	Private	Dry	25	683. N. Elaiyalvar
				331/7	Private	Dry	1397	683. N. Elaiyalvar
				331/9	Private	Dry	2052	958. V. Soundarapandian
				331/10	Private	Dry	1761	958. V. Soundarapandian
				333/1	Private	Dry	3102	108.S. Rajagopal
				333/4	Government	Cart Track	154	Government
				333/5	Private	Dry	1810	270. V. Kasi Nadar
			(3) Cholapuram	129/1	Private	Dry	3541	454. B. Bakialakshmi
				129/2	Government	Cart Track	139	Government
				129/5	Private	Dry	524	653.P. Ramamoorthy
				130/1	Private	Dry	543	456.P. Ramamoorthy
				130/2	Private	Dry	554	614. P. Srinivasan
				130/3	Private	Dry	655	265. 1. M. Muthusamy Nadar 2. Calcium Industries Corporation.
				130/4	Private	Dry	754	265.M. Muthusamy Nadar Calcium Industries Cor.
				130/5	Private	Dry	5784	433.A. Balakrishnan
				131	Government	Rastha	188	Government
				132	Government	Rastha	7100	Government
				133	Government	Rastha	7100	Government
				134/2	Private	Dry	1362	181.S. Selvam
				134/3	Government	Cart Track	1050	Government
				134/4	Private	Dry	1422	448.S. Selvam
				135/1A	Private	Dry	888	110.J. Jayabalan
				135/1B	Private	Dry	970	645. Hetchly

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				135/5	Private	Dry	880	613. S. Ponraj (a) Ponnuel
				135/6	Private	Dry	909	126. C. Selvaraj
				147/1	Private	Dry	4,220	448. S. Selvam
				147/4	Government	Odai	103	Government
				148/1	Private	Dry	1175	117. S. Selvam
				148/2	Private	Dry	728	182. A. Shunmugathai M. Thenmani
				149	Government	Rastha	2900	Government
				150	Government	Rastha	7750	Government
				151/1	Private	Dry	1486	458. P. Renuka
				151/2A	Private	Dry	705	641. M. Umar Banu
				151/2B	Private	Dry	725	641. M. Umar Banu
				151/3	Private	Dry	1980	458. P. Renuka
				151/4	Private	Dry	1394	96. T. Thangapandi Nadar
				151/5	Private	Dry	1285	646. K. Stalin
				152	Government	Rastha	10050	Government
				153/1	Private	Dry	50	456. P. Ramamoorthy
				153/2	Private	Dry	5504	439. V. Kasivel Shankar G. Vasantha G. Jayanaga Jothi G. Vijayalakshmi
				156	Government	PWD Kannai	1104	Government
				157	Government	Rastha	7600	Government
				158	Government	Rastha	7700	Government
				159/1	Private	Dry	1069	629. J. Hemalatha
				159/2	Private	Dry	656	162. K. Ravi
				159/3	Private	Dry	882	636. K. Gunasekaran
				198/1B	Private	Dry	448	395. T. Durai Pandi Nadar T. Paulraj Nadar T. Jeyapaul Nadar C. Kaithapandian
				198/1C	Private	Dry	468	452. C. Banumathi C. Periyasamy Nathan C. Seetharani
				199/1P	Private	Dry	1064	301. S. Ramasamy
				199/3	Private	Dry	1508	649. K. Mathiprakasam
				200	Government	Rastha	7200	Government
				201	Government	PWD Kannai	2332	Government

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				202	Government	PWD Kanmoi	692	Government
				204	Government	PWD Kanmoi	336	Government
				205	Government	PWD Kanmoi	103	Government
				206/1	Government	Odai	4	Government
				206/2A	Private	Dry	81	97. K. Kumarasamy
				208/1	Private	Dry	714	115.B. Shanthi
				208/2	Private	Dry	814	121.G. Vetrivel
				208/3	Private	Dry	643	378.R. Parthasarathi
				208/4	Private	Dry	284	211. P. Arunkumar
				208/5	Government	PWD Kanmoi	164	Government
				209/1	Private	Dry	765	121. G. Vetrivel
				209/3	Private	Dry	676	121.G. Vetrivel

[F. No. NHAI/BOT/11012/59/2005 (Pt.)]

PRABHAKAR, Dy. Secy.